

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन, बुजुर्गों के लिए लॉन्ग-टर्म केयर के कैम्पस की मदद कर रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (10 मार्च, 2021) – सिटी काउंसिल (City Council) ने स्टाफ को फ्लावर सिटी कम्युनिटी कैम्पस (Flower City Community Campus) पर, पांच एकड़ तक की ज़मीन की लीज़ तैयार करने की अनुमति दी गई है। यह ज़मीन, ब्रैम्पटन के बुजुर्गों के लिए लॉन्ग-टर्म केयर की मदद में एक खास कैम्पस ऑफ केयर (Campus of Care) बनाने के लिए, गोल्डन एज विलेज फॉर द एल्डर्ली (जी.ए.वी.ई.) (Golden Age Village for The Elderly) (GAVE) को दी जा रही है।

कैम्पस ऑफ केयर फैसिलिटी में दो बिल्डिंग्स शामिल होंगी। एक में 160-बेड वाला लॉन्ग-टर्म केयर का आधुनिक होम होगा और दूसरी में 140-यूनिट वाली वहनीय हाउसिंग यूनिट होगी। कैम्पस ऑफ केयर, बुजुर्गों को जीवनशैली और स्वास्थ्य संबंधी और मदद भी प्रदान करेगा, जिससे वे स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में सक्षम होंगे। बुजुर्गों को उनके घरों में सुरक्षित और स्वस्थ रखने के साथ, हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव कम होगा।

रजिस्टर्ड चैरिटी के तौर पर, GAVE का मिशन, ओनटैरियो में बुजुर्गों के लिए गंभीर हाउसिंग संकट पर ध्यान देने में मदद करना है। साथ ही, विविध सांस्कृतिक, विरासत संबंधी, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के द्वारा, बुजुर्गों के लिए और अन्य लोगों के लिए, खुशहाल, स्वस्थ और संतुष्ट जीवनशैली विकसित करने के लिए, स्वतंत्र जीवन और लॉन्ग-टर्म केयर प्रदान करना भी इसका मिशन है।

ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने सबसे पहले, 26 जनवरी, 2020 को, कैम्पस ऑफ केयर विकसित करने के लिए, 50 वर्षों की अवधि के लिए GAVE को समर्पित ज़मीन की मंजूरी दी थी।

ओनटैरियो की मिनिस्ट्री ऑफ लॉन्ग-टर्म केयर (Ministry of Long-Term Care), लॉन्ग-टर्म केयर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए और हॉलवे हेल्थ केयर (अस्पताल में बेड्स की कमी के कारण गलियारे में मरीजों का इलाज करना) को समाप्त करने में मदद के लिए, 15,000 नए लॉन्ग-टर्म केयर संबंधी बेड्स के लिए कैपेसिटी बना रही है, जिसमें 2023 तक पूरा करने के लक्ष्य के साथ लॉन्ग-टर्म केयर संबंधी 7,000, और बेड शामिल किए जा रहे हैं।

हवाले

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, हमारे बुजुर्गों की मदद करने के लिए समर्पित है, जिन्होंने अपने बच्चों, पोते-पोतियों, आज्ञादी और कनेडा में बेहतर ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगियों का बलिदान दिया है। गोल्डन एज विलेज फॉर द एल्डर्ली जैसे संगठनों के द्वारा, हमारे बुजुर्ग, आराम और सुरक्षा के साथ अपने सुनहरे दिनों का आनंद लेने में सक्षम हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“गोल्डन एज विलेज फॉर द एल्डर्ली को, फलावर सिटी कम्युनिटी कैम्पस पर यह ज़मीन लीज पर देना यह दर्शाता है कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, हमारी कम्युनिटी में लॉग-टर्म केयर में मदद करने और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकल रीजनल काउंसलर और पील के चेयर ऑफ ह्यूमैन सर्विसिज होने के तौर पर, मैं ब्रैम्पटन में गोल्डन एज विलेज की प्रतिबद्धता का स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि सिटी काउंसिल ने, वार्ड 4 में इस महत्वपूर्ण वहनीय हाउसिंग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड 3 और 4; चेयर, प्लानिंग एंड डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन; चेयर, ह्यूमैन सर्विसिज, रीजन ऑफ पील*

“कैम्पस ऑफ केयर होने से, बुजुर्गों को उस जगह पर सुरक्षित और स्वस्थ रखकर, जिसे वे अपना घर कह सकें, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। इस वार्ड में बुजुर्गों के लिए, 160-बेड वाला लॉग-टर्म केयर वाला आधुनिक होम और 140-यूनिट वाली वहनीय हाउसिंग यूनिट, वार्ड 4 में एक शानदार वृद्धि है, जो सुनिश्चित करती है कि ब्रैम्पटन के बुजुर्गों के पास एक वहनीय जगह है, जिसे वे अपना घर कह सकते हैं।”

- *जेफ बोमैन (Jeff Bowman), सिटी काउंसलर, वार्ड 3 और 4, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“यह प्रोजेक्ट सीधे तौर पर, हमारी सिटी के सबसे अधिक कमज़ोर निवासियों की मदद करता है। इस कैम्पस ऑफ केयर फैसिलिटी का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के कई क्षेत्रों में नौकरियां पैदा करके, सिटी की आर्थिक बहाली में मदद करेगा। इन क्षेत्रों में शामिल हैं, निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और लॉग-टर्म केयर। इस महत्वपूर्ण साझेदारी के आगे बढ़ने में हमें खुशी है, जो हमारे बुजुर्गों की कम्युनिटी के लिए जरूरी सहायता प्रदान करती है।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca